



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 207 राँची, सोमवार,

11 मार्च, 2019 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

20 फरवरी, 2019

विषय:-राज्य योजनान्तर्गत संचालित HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना के अधीन लाभुकों को देय पेंशन राशि रु०-600/- प्रतिमाह में वृद्धि कर रु०-1,000/- प्रतिमाह करने की स्वीकृति।

संख्या- 525-- राज्य योजनान्तर्गत वर्तमान में HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अधीन वर्तमान में राज्य के आच्छादित लाभुकों को रु०600/-(छः सौ रुपये) प्रतिमाह प्रतिलाभुक की दर से भुगतान किया जा रहा है।

2) लाभुकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक- 26.02.2019 को राज्य मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में इस योजना अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को उपरोक्त देय मासिक पेंशन राशि में वृद्धि कर रु०1,000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 3) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना एवं स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा। उसी प्रकार HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों को ऊपर वर्णित पेंशन योजनाओं में से किसी भी योजना का लाभ देय नहीं होगा।
- 4) योजनान्तर्गत लाभुकों के मासिक पेंशन राशि में वृद्धि दिनांक-01.04.2019 के प्रभाव से प्रभावी होगी।
- 5) पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी विभागीय संकल्प संख्या-1522, दिनांक-17.06.2016 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
